



निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 11 पटना, बुधवार, 24 फाल्गुन 1938 (श0)
15 मार्च 2017 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-9
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	10-12

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
23 नवम्बर 2016

सं० 1/पी04-02/2015 गृ0आ0-9169—श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो, भा0पु0से0 (2009) को उनके मूल संवर्ग जम्मू एवं कश्मीर से बिहार संवर्ग में स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके मूल संवर्ग से दिनांक 10.04.2013 के प्रभाव से विरमित किया गया। उक्त के आलोक में श्री ढिल्लो द्वारा बिहार संवर्ग में दिनांक 24.04.2013 को योगदान किया गया।

2. श्री ढिल्लो को उनके पैतृक संवर्ग में दिनांक 01.01.2013 के प्रभाव से वरीय समय वेतनमान Pay-Band-3: Rs. 15,600-39,100; Plus Grade Pay Rs. 6600; में प्रोन्नति प्रदान की गयी थी, परंतु बिहार संवर्ग में स्थानांतण के कारण उन्हें प्रोन्नति का लाभ पैतृक संवर्ग में नहीं मिल सका। बिहार संवर्ग में भी उस प्रोन्नति के आधार पर उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो सका। श्री ढिल्लो की सेवा की संपुष्टि दिनांक 24.12.2011 के प्रभाव से गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 21.10.2015 द्वारा की गयी है।

3. श्री ढिल्लो द्वारा बिहार संवर्ग में योगदान के पश्चात् उनके द्वारा बिहार सरकार में आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की गयी और उसके आधार पर विभागीय अधिसूचना सं०-5362, दिनांक 12.07.2016 द्वारा दिनांक 27.05.2014 के प्रभाव से (विभागीय परीक्षा आयोजन की तिथि) वरीय समय वेतनमान में प्रोन्नति दी गयी।

4. इस विभाग की उक्त अधिसूचना के प्रसंग में श्री ढिल्लो द्वारा आवेदन दिया गया कि उन्हें वरीय समय वेतनमान में प्रोन्नति को निर्धारित समय दिनांक 01.01.2013 से ही प्रभावी किया जाय। इस पर राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत उनके पैतृक संवर्ग में उन्हें दिनांक 01.01.2013 के प्रभाव से वरीय समय वेतनमान में दी गयी प्रोन्नति को मान्य करते हुए उक्त तिथि से प्रोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-5362, दिनांक 12.07.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

15 नवम्बर 2016

सं० 1/डी01-10-04/2016 गृ0आ0-8974—श्री शिवदीप वामनराव लाण्डे, भा0पु0से0 (BH:2006), सम्प्रति पुलिस अधीक्षक (अभियान), एस0टी0एफ0, बिहार, पटना को व्यक्तिगत आधार पर तीन वर्षों के लिए बिहार संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग में अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए उनकी सेवा महाराष्ट्र सरकार को सौंपी जाती है।

2. श्री लाण्डे को निदेश दिया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-I-21021/08/2016-IPS-IV, दिनांक 14.10.2016 द्रष्टव्य)।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

28 दिसम्बर 2016

सं० 1/पी05-10-03/2009 गृ0आ0-10186—पुलिस सेवा के वर्ष 1985 से 1996 बैच तक के पदाधिकारियों को प्रवर कोटि वेतनमान में पूर्व में प्रोन्नति प्रदान की गयी थी। इनमें से कुछ पदाधिकारियों द्वारा प्रवर कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श तथा भा0पु0से0 (वेतन) नियमावली, 1954 एवं प्रोन्नति दिशा निर्देश में उल्लिखित प्रावधानों तथा इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्गत पत्रों में की गयी व्याख्या के आलोक में भा0पु0से0 के इन

पदाधिकारियों को प्रवर कोटि वेतनमान में पूर्व में प्रदान की गयी प्रोन्नति की तिथि को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करने के प्रस्ताव पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा समीक्षा की गयी ।

2. विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1985 से 1996 बैच तक के कुल-71 (एकहत्तर) पदाधिकारियों को प्रवर कोटि वेतनमान में दी गयी प्रोन्नति आदेश को संशोधित करते हुए भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर कोटि में प्रोन्नति निम्नांकित सूची के स्तम्भ-5 में अंकित देय तिथि के प्रभाव से दी जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	प्रवर कोटि हेतु अनुमान्य तिथि	तिथि जब से प्रवर कोटि प्रोन्नति मिली है। (आदेश निर्गत की तिथि से)	रिक्ति की उपलब्धता/ अनुमान्यता के अनुसार प्रवर कोटि हेतु देय तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री कुमार राजेश चन्द्रा (85)	01.01.1998	14.11.2000 अं०सं० 13840, दि० 14.11.2000	29.01.1998
2	श्री अजय कुमार वर्मा (85)	01.01.1998	14.11.2000 अं०सं० 5622, दि० 16.06.03	29.01.1998
3	श्री बृज बिहारी प्रसाद (85) (से०नि०)	01.01.1998	14.11.2000 अं०सं० 13840, दि० 14.11.2000	09.04.1999
4	श्री रामयश सिंह (85) (से०नि०)	01.01.1998	14.11.2000 अं०सं० 13840, दि० 14.11.2000	09.04.1999
5	श्री बी०पी०एन० सिंह विकट (85) (से०नि०)	01.01.1998	14.11.2000 अं०सं० 13840, दि० 14.11.2000	19.06.2000
6	श्री आर०के० मिश्रा (86)	01.01.1999	15.12.2001 अं०सं० 12068, दि० 15.12.01	19.06.2000
7	श्री शीलवर्द्धन सिंह (86)	01.01.1999	15.12.2001 अं०सं० 4443, दि० 09.05.03	19.06.2000
8	श्री अशोक कुमार वर्मा (86)	01.01.1999	15.12.2001 अं०सं० 12068, दि० 15.12.01	19.06.2000
9	श्री पी०ए०के० बेक (86) (से०नि०)	01.01.1999	20.10.03 अ०सं० 10067, दि० 20.10.03	22.02.2002
10	श्री डी०एस० बिष्ट (87)	01.01.2000	09.05.2003 अ०सं० 4444, दि० 09.05.03	22.02.2002
11	श्री सुनील कुमार (87)	01.01.2000	09.05.2003 अ०सं० 4445, दि० 09.05.03	22.02.2002
12	श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय (87)	01.01.2000	27.02.04 अ०सं० 2417, दि० 27.02.04	22.02.2002
13	श्री ए०एस० राजन (87)	01.01.2000	अधिसूचना उपलब्ध नहीं है । कनीय की तिथि के अनुसार 20.10.03	22.02.2002
14	श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (87) (से०नि०)	01.01.2000	20.10.03 अ०सं० 10067, दि० 20.10.03	22.02.2002
15	श्री अरविन्द पाण्डेय (88)	01.01.2001	27.02.2004 अ०सं० 11413, दि० 28.11.05	31.12.2002
16	श्री एस०के० सिंघल (88)	01.01.2001	27.02.2004 अ०सं० 2417, दि० 27.02.04	18.12.2003
17	श्री मनमोहन सिंह (88)	01.01.2001	अधिसूचना उपलब्ध नहीं है । कनीय की तिथि के अनुसार 27.02.04	18.12.2003
18	श्री मो० शोएब खाँ (88) (से०नि०)	01.01.2001	27.02.2004 अ०सं० 2417, दि० 27.02.04	18.12.2003
19	श्री सुभाष चन्द्र सिंह (88) (से०नि०)	01.01.2001	27.02.2004 अ०सं० 2417, दि० 27.02.04	18.12.2003
20	श्री आलोक राज (89)	01.01.2002	27.02.2004 अ०सं० 2417, दि० 27.02.04	18.12.2003
21	श्री विमलेश प्र० सिन्हा (89) (से०नि०)	01.01.2002	27.02.2004 अ०सं० 2417, दि० 27.02.04	18.12.2003
22	श्री आर०एस० भट्टी (90)	01.01.2003	अधिसूचना उपलब्ध नहीं है । कनीय की तिथि के अनुसार 23.06.2005	18.12.2003
23	श्री नीरज सिन्हा (90)	01.01.2003	अधिसूचना उपलब्ध नहीं है । कनीय की तिथि के अनुसार 23.06.2005	18.12.2003
24	श्रीमती शोभा ओहटकर (90)	01.01.2003	23.06.2005 अ०सं० 6167, दि० 23.06.05	18.12.2003
25	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह (90) (से०नि०)	01.01.2003	04.10.05 अ०सं० 9999, दि० 04.10.05	18.12.2003
26	श्री विनय कुमार (91)	01.01.2004	27.06.2006 अ०सं० 6680, दि० 27.06.06	01.01.2004
27	श्री प्रवीण वशिष्ठ (91)	01.01.2004	27.06.2006 अ०सं० 6680, दि० 27.06.06	01.01.2004
28	श्रीमती प्रीता वर्मा (91)	01.01.2004	27.06.2006 अ०सं० 6680, दि० 27.06.06	01.01.2004
29	श्री के०के० वर्मा (91) (से०नि०)	01.01.2004	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	01.01.2004
30	श्री शहाब अख्तर (91) (से०नि०)	01.01.2004	27.06.2006 अ०सं० 6680, दि० 27.06.06	01.01.2004
31	श्री गणेश प्रसाद वर्मा (91) (से०नि०)	01.01.2004	27.06.2006 अ०सं० 6680, दि० 27.06.06	01.01.2004
32	श्री रघुवंश प्र० यादव (91) (से०नि०)	01.01.2004	27.06.2006 अ०सं० 6680, दि० 27.06.06	03.12.2004
33	श्री मनोहर प्र० सिंह (91) (से०नि०)	01.01.2004	23.11.2006 अ०सं० 12739, दि० 23.11.06	03.12.2004
34	श्री सत्येन्द्र प्र० सिंह (91) (से०नि०)	01.01.2004	27.06.2006 अ०सं० 6680, दि० 27.06.06	03.12.2004
35	श्री बसीरुद्दीन अहमद (91) (से०नि०)	01.01.2004	27.06.2006 अ०सं० 6680, दि० 27.06.06	03.12.2004

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	प्रवर कोटि हेतु अनुमान्य तिथि	तिथि जब से प्रवर कोटि प्रोन्नति मिली है। (आदेश निर्गत की तिथि से)	रिक्ति की उपलब्धता/ अनुमान्यता के अनुसार प्रवर कोटि हेतु देय तिथि
1	2	3	4	5
36	श्री जगलाल चौधरी (91) (से०नि०)	01.01.2004	23.11.2006 अ०सं० 12739, दि० 23.11.06	21.05.2005
37	श्री जे०पी०एन० सिंह (91) (से०नि०)	01.01.2004	27.06.2006 अ०सं० 6680, दि० 27.06.06	21.05.2005
38	श्री रघुनाथ प्र० सिंह (91) (से०नि०)	01.01.2004	27.06.2006 अ०सं० 6680, दि० 27.06.06	21.05.2005
39	श्री ए०के० अम्बेदकर (92)	01.01.2005	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	21.05.2005
40	श्री बी० श्रीनिवासन (92)	01.01.2005	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	01.01.2006
41	श्री जे०एस० गंगवार (93)	01.01.2006	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	01.01.2006
42	श्री सुनील कुमार झा (93)	01.01.2006	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	01.01.2006
43	श्री अरविन्द कुमार (93)	01.01.2006	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	10.04.2007
44	श्री जितेन्द्र कुमार (93)	01.01.2006	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	10.04.2007
45	श्री आर०के० झा (93) (से०नि०)	01.01.2006	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	10.04.2007
46	श्री के०एम० लाल (93) (से०नि०)	01.01.2006	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	10.04.2007
47	श्री कुन्दन कृष्णन (94)	01.01.2007	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	10.04.2007
48	श्री अमित कुमार (94)	01.01.2007	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	10.04.2007
49	श्री परेश सकसेना (94)	01.01.2007	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	10.04.2007
50	श्री एन०के० आजाद (94)	01.01.2007	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	10.04.2007
51	श्रीमती अनुपमा एस० निलेकर (94)	01.01.2007	04.12.2007 अ०सं० 11509, दि० 04.12.07	10.04.2007
52	श्री बलदेव प्रसाद (94) (से०नि०)	01.01.2007	18.12.2008 अ०सं० 383, दि० 02.02.09	10.04.2007
53	श्री डी०एन० गुप्ता (94) (से०नि०)	01.01.2007	02.02.2009 अ०सं० 383, दि० 02.02.09	10.04.2007
54	श्री शैलेश कुमार सिंह (94) (से०नि०)	01.01.2007	02.02.2009 अ०सं० 383, दि० 02.02.09	10.04.2007
55	श्री एस०एम० खोपड़े (95)	01.01.2008	02.02.2009 अ०सं० 383, दि० 02.02.09	01.01.2008
56	श्री एस० रविन्द्रण (95)	01.01.2008	02.02.2009 अ०सं० 383, दि० 02.02.09	01.01.2008
57	श्रीमती आर० मलार विजी (95)	01.01.2008	02.02.2009 अ०सं० 383, दि० 02.02.09	29.03.2008
58	श्री जगमोहन (95)	01.01.2008	02.02.2009 अ०सं० 383, दि० 02.02.09	29.03.2008
59	श्री शाहरुख मजीद (95) (से०नि०)	01.01.2008	02.02.2009 अ०सं० 383, दि० 02.02.09	29.03.2008
60	श्री सत्यनारायण झा (95) (से०नि०)	01.01.2008	02.02.2009 अ०सं० 383, दि० 02.02.09	29.07.2008
61	श्री सुनील कुमार सिन्हा (95) (से०नि०)	01.01.2008	02.02.2009 अ०सं० 383, दि० 02.02.09	29.07.2008
62	श्री अमित कुमार जैन (96)	01.01.2009	03.02.09 अ०सं० 4083, दि० 17.05.10	01.01.2009
63	श्री सुधांशु कुमार (96)	01.01.2009	03.02.09 अ०सं० 1279, दि० 21.02.11	01.01.2009
64	श्री नैय्यर हसनैन खाँ (96)	01.01.2009	03.02.09 अ०सं० 4083, दि० 17.05.10	01.01.2009
65	श्री सुनील कुमार (96)	01.01.2009	03.02.09 अ०सं० 4083, दि० 17.05.10	01.01.2009
66	डॉ० कमल किशोर सिंह (96)	01.01.2009	03.02.09 अ०सं० 4083, दि० 17.05.10	01.01.2009
67	श्री पारसनाथ (96)	01.01.2009	03.02.09 अ०सं० 4083, दि० 17.05.10	01.01.2009
68	श्री अनिल किशोर यादव (96)	01.01.2009	03.02.09 अ०सं० 1279, दि० 21.02.11	01.01.2009
69	श्री बच्चू सिंह मीणा (96)	01.01.2009	03.02.09 अ०सं० 4087, दि० 17.05.10	01.01.2009
70	श्री अशोक कुमार सिंह (96) (से०नि०)	01.01.2009	03.02.09 अ०सं० 4087, दि० 17.05.10	01.01.2009
71	श्री कपिलेश्वर मॉझी (96) (से०नि०)	01.01.2009	03.02.09 अ०सं० 4087, दि० 17.05.10	01.01.2009

2. उपर्युक्त सूची के स्तंभ-4 में अंकित अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझी जाय।

3. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप किसी भी पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

29 दिसम्बर 2016

सं० 1/पी05-10-02/2005 गृ०आ०-10270—कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 11030/22/91 ए०आई०एस०, दिनांक 10.03.1993 जो भा०आ०से० यथा संशोधित (वेतन) नियमावली-1954 के नियम 3 के उप नियम-1 (ए) के अधीन निर्गत है, के आलोक में भा०पु०से० के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम (5) में अंकित तिथि से कनीय प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान Pay-Band-3: Rs. 15600-39100: plus Grade Pay Rs. 7600; (अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति देते हुए नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	नियुक्ति का श्रोत	आवंटन वर्ष	भा०पु०से० में नियुक्ति की तिथि	कनीय प्रशासनिक ग्रेड (JAG) में प्रोन्नति की तिथि
1	2		3	4	5
1.	श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा	RR	2008	01.09.2008	01.01.2017
2.	श्रीमती किम	RR	2008	22.12.2008	01.01.2017
3.	श्री मनोज कुमार	RR	2008	01.09.2008	01.01.2017
4.	श्री सत्यवीर सिंह	RR	2008	22.12.2008	01.01.2017
5.	श्री विकास वर्मन	RR	2008	01.09.2008	01.01.2017
6.	श्रीमती निताशा गुड्डिया	RR	2008	01.09.2008	01.01.2017
7.	श्री संजय कुमार	SPS	2008	21.10.2013	01.01.2017
8.	श्री विकास कुमार	SPS	2008	21.10.2013	01.01.2017
9.	श्री दिलीप कुमार मिश्रा	SPS	2008	08.04.2015	01.01.2017
10.	श्री अश्विनी कुमार	SPS	2008	08.04.2015	01.01.2017

2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

"The promotion to Junior Administrative Grade is granted subject to condition that the officers mentioned on Sl. No. 1 to 10 shall attend and complete the mandatory MCTP Phase-III training in the next slot made available to them as per IPS (Pay) Rules, 2007."

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव ।

16 जनवरी 2017

सं० 1/सी०1-09/2015 गृ०आ०-367—68 RR वर्ष 2015 बैच के कुल 06 (छः) निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को बिहार पुलिस अकादमी, पटना में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत दिनांक 23.01.2017 से इनके जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित जिला आवंटित करते हुए उन्हें निदेश दिया जाता है कि आवंटित जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योगदान दें :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/बैच	गृह जिला/राज्य	जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित जिला
1	2	3	4
1.	श्री जितेन्द्र कुमार (2015)	भोजपुर (बिहार)	भागलपुर
2.	श्री कांतेश कुमार मिश्रा (2015)	भोजपुर (बिहार)	मुजफ्फरपुर
3.	श्री मंजीत (2015)	हिसार (हरियाणा)	गया
4.	श्री सुशील कुमार (2015)	पटना (बिहार)	पूर्णियाँ
5.	श्री विनय तिवारी (2015)	ललितपुर (उत्तर प्रदेश)	बेगूसराय
6.	श्री योगेन्द्र कुमार (2015)	हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)	पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव ।

16 जनवरी 2017

सं० 1/पी०5-1010/2003 खंड-1 गृ०आ०-368—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को कॉलम-4 में अंकित तिथि से प्रवर कोटि वेतनमान Pay-Band-4; Rs. 37400-67000; Plus Grade Pay Rs. 8700 (अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	प्रोन्नति का प्रभाव
1	2	3	4
1.	श्री विनय कुमार	2004	दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से
2.	श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह	2004	दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से

क्र०	पदाधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	प्रोन्नति का प्रभाव
1	2	3	4
3.	श्री विजय कुमार वर्मा	2004	दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से
4.	श्री कुमार एकले	2004	दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से
5.	श्री रत्नमणि संजीव	2004	दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से
6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	2004	दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से
7.	श्री सुरेश प्रसाद चौधरी	2004	दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से

2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप किसी भी पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

16 जनवरी 2017

सं० 1/पी05-10-03/2008 खण्ड-I गृ०आ०-369—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रवर कोटि से पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि वेतनमान Pay-Band-4; Rs. 37400-67000; Plus Grade Pay Rs. 8900 (अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष
1	2	3
1.	श्री विकास वैभव	2003
2.	श्री राजेश कुमार	2003
3.	श्री अनिल कुमार सिंह	2003

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

16 जनवरी 2017

सं० 1/पी05-10-01/2008 गृ०आ०-370—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि से पुलिस महानिरीक्षक कोटि वेतनमान Pay-Band-4; Rs. 37400-67000; Plus Grade Pay Rs. 10000 (अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष
1	2	3
1.	श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा	1999
2.	श्री सतीश कुमार	1999
3.	श्री गोपाल प्रसाद	1999

2. पुलिस महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति के लिए MCTP फेज-IV का प्रशिक्षण अनिवार्य शर्त है। उपरोक्त पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की अवधि तीन वर्षों से कम होने के कारण भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) (I) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गयी है।

3. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

16 जनवरी 2017

सं० 1/पी05-10-02/2008 खण्ड-I गृ०आ०-371—श्री अमरेन्द्र कुमार अम्बेदकर, भा०पु०से० (BH:1992) पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना को अपर पुलिस महानिदेशक कोटि वेतनमान HAG Scale Rs. 67000/- (annual increment @ 3%) 79000/- (अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

16 जनवरी 2017

सं० 1/सी01-31/2014 गृ०आ०-372—श्री सुनील कुमार, भा०पु०से० (BH:1987), अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना को पुलिस महानिदेशक कोटि वेतनमान HAG+SCALE: Rs. 75500- (annual increment @ 3%) - 80000/- (अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव ।

17 जनवरी 2017

सं० 1/सी01-16/2015 गृ.आ.-434—श्री हरकिशोर राय, भा०पु०से० (2011), राज्यपाल के परिसहाय, बिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना में योगदान करने हेतु निदेश दिया जाता है ।

सं० 1/सी01-16/2015 गृ.आ.-434—श्री आनन्द कुमार, भा०पु०से० (2012), नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्यपाल, बिहार के परिसहाय के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव ।

सं० 1/पी05-30-01/2016 गृ०आ०-9144

संकल्प

23 नवम्बर 2016

श्री मो० मंसूर अहमद, भा०पु०से० (2001), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना को स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, आदेशोल्लंघन एवं अमर्यादित आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमवाली, 1969 के नियम-3 (1) (ए) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या-3171, दिनांक 21.04.2016 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया एवं उनका मुख्यालय पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा का कार्यालय निर्धारित किया गया, जहाँ उन्होंने स्वेच्छापूर्वक योगदान नहीं किया । बाद में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ, पटना के आदेश दिनांक 27.05.2016 के अनुपालन में श्री अहमद की निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना का कार्यालय विभागीय संकल्प संख्या-4916, दिनांक 30.06.2016 द्वारा निर्धारित किया गया ।

2. विभागीय संकल्प संख्या-3171, दिनांक 21.04.2016 के क्रम में उक्त नियमावली के नियम-8 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय लिया गया एवं इस संबंध में आरोप पत्र हेतु ज्ञापन विभागीय ज्ञापांक-3655, दिनांक 10.05.2016 द्वारा निर्गत किया गया ।

3. श्री मो० मंसूर अहमद, भा०पु०से० (2001) को दिनांक 21.04.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया था और इनके निलंबन की संपुष्टि पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.06.2016 तक (साठ दिनों की अवधि) के लिए प्रदान की गयी । अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के संशोधित प्रावधानों के आलोक में श्री अहमद के निलंबन की समीक्षा दिनांक 07.06.2016 को आयोजित बैठक में की गयी एवं समीक्षोपरांत निलम्बन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 17.10.2016 तक 120 दिनों के लिए निलंबन अवधि विस्तारित की गयी तथा दिनांक 30.09.2016 को आयोजित बैठक में निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 17.10.2016 के आगे निलंबन को अगले आदेश तक बरकरार रखने का संकल्प निर्गत किया गया ।

4. श्री मो० मंसूर अहमद, भा०पु०से० (2001) की आसन्न सेवानिवृत्ति की तिथि 30.11.2016 के मद्देनजर उनके निलंबन को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है । निलंबन वापसी के पश्चात् नियमित पदस्थापन होने तक श्री अहमद को पदस्थापन की प्रतीक्षा में पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना में योगदान देने का निदेश दिया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव ।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

6 मार्च 2017

सं० 15/बि०स०से-20-08/2016 सा०प्र०-2699—वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा परिचारित बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के नियम-4 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के मामलों पर विचारण के लिए निम्नांकित प्रकार से विभागीय स्क्रीनिंग समिति गठित की जाती है:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. श्री राजेन्द्र राम, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। | — | अध्यक्ष |
| 2. वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर के न हों | — | सदस्य |
| 3. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनु० जाति/ अनु० जनजाति के पदाधिकारी | — | सदस्य |
| 4. श्री गुफरान अहमद, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी | — | सदस्य |

2. स्क्रीनिंग समिति की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार यथा संभव जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, अपर सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना

7 मार्च 2017

सं० एल/एच० जी०-1501/2005— 1885—सी०, वित्त विभाग के संकल्प सं०-4685 दिनांक 25.06.2003 (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003) के तहत श्री विमल कुमार शांडिल्य, तत्कालीन प्रमण्डलीय समादेष्टा, सहरसा सम्प्रति समादेष्टा, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा को विभागीय अधिसूचना सं०-2009 दिनांक 09.03.2011 (क्रमांक-5) के द्वारा वेतनमान 10000-15200 (अपुनरीक्षित) में दिनांक 28.09.2001 के प्रभाव से स्वीकृत की गई। पुनः वित्त विभाग के संकल्प सं०- 7566 दिनांक 14.07.2010 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-7341 दिनांक 04.08.2016 (क्रमांक-4) के द्वारा श्री शांडिल्य को वेतनबैंड 15600-39100, ग्रेड पे 7600 में द्वितीय एम.ए.सी.पी दिनांक 20.09.2009 के प्रभाव से स्वीकृत करते हुए पूर्व स्वीकृत प्रथम ए०सी०पी० की तिथि में दिनांक 28.09.2001 को संशोधित कर दिनांक 20.09.2001 की गई।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1243 (23) दिनांक 01.12.2016 के आलोक में श्री शांडिल्य के जिला समादेष्टा के पद पर योगदान की तिथि की संपुष्टि कराई गई। बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, पटना के पत्रांक-385 दिनांक 31.01.2017 के प्रतिवेदन के अनुसार श्री शांडिल्य की जिला समादेष्टा के पद पर की गई नियुक्ति के आलोक में योगदान तिथि 20.10.1989 है।

3. अतः उपरोक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 7341 दिनांक: 04.08.2016 के क्रमांक-4 में अंकित श्री विमल कुमार शांडिल्य, समादेष्टा, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा के जिला समादेष्टा के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि 20.10.1989 के आधार पर क्रमशः स्वीकृत प्रथम ए०सी०पी० एवं द्वितीय एम०ए०सी०पी० की तिथि को संशोधित करते हुए क्रमशः दिनांक 20.10.2001 एवं 20.10.2009 की जाती है।

4. शेष यथावत रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव।

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना
13 जनवरी 2017

सं० पर्या०/वन-42/2002-21ई०/प०व०—जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के नियम 12(6) के अन्तर्गत प्रावधानिक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के गठन संबंधी विभागीय अधिसूचना सं०-629(ई०), दिनांक 15.09.2016 के क्रम संख्या 2 एवं 3 को उपरोक्त नियम-2016 के नियम-12 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में निम्नवत् संशोधित किया जाता है:—

2	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य-सचिव
3	राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी	सदस्य

उपरोक्त विभागीय अधिसूचना संख्या-629(ई०), दिनांक 15.09.2016 इस हद तक संशोधित समझी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 52—571+30-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

3 मार्च 2017

सं० 6/आ०-10/2017सा०प्र०-2628—बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इण्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारम्भिक-2014) के प्रश्न-पत्र के परीक्षा पूर्व सार्वजनिक हो जाने के मामले में भा०द०वि० की धारा-419/420/467/468/471/34 एवं आई० टी० एक्ट की धारा-66/(डी.) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-13(2) के तहत अगमकुओं थाना में आपराधिक कांड संख्या-44/2017 दिनांक 04.02.2017 दर्ज हुआ है।

2. श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से.(बिहार :1987), तदेन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विरुद्ध प्रासंगिक आपराधिक कृत्य में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर दिनांक 24.02.2017 को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया गया है। श्री कुमार की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि अब 48 घंटे से अधिक हो गयी है।

3. वर्णित आलोक में श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से.(बिहार :1987), तदेन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 के उप नियम-2 एवं उप नियम-3 के प्रावधानों के तहत उन्हें हिरासत में लिये जाने की तिथि से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन की अवधि में श्री कुमार को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-4 के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह संयुक्त सचिव।

आदेश

12 जनवरी 2017

सं० 6/आ०-92/2016सा०प्र०-336—राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष 2013-14 और इससे पूर्व के वर्षों में छात्रवृत्ति भुगतान में हुई अनियमितताओं के मामलों में श्री एस. एम. राजू, भा०प्र०से० (बिहार:1991), तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना— सम्प्रति अपर सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार के विरुद्ध धारा-406/409/420/467/468/471/477(ए)/120(बी.) भा०द०वि० एवं धारा-13 (2) सह पठित धारा-13 (1) (सी) (डी) भ्र.नि.अधि.,1988 के तहत निगरानी थाना, पटना में दर्ज कांड संख्या-127/16, दिनांक 29.11.16 को दृष्टिगत करते हुए श्री राजू को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 के उपनियम-3 के प्रावधान के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री राजू का मुख्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना रहेगा।

3. निलंबन की अवधि में श्री राजू को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-4 के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दयानिधान पाण्डेय, अपर सचिव।

सं० 5 नि०गो०वि० (4) 01/2015-77नि०गो०

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प

8 मार्च 2017

चारा घोटाला से संबंधित अपराधिक कांड संख्या-आर०सी० 31 (ए)/96 में माननीय विशेष न्यायाधीश (V), सी०बी०आई० (ए०एच०डी० स्कैम केसेज), राँची के द्वारा दिनांक 07.05.2012 को न्याय निर्णय पारित किया गया। उक्त न्याय निर्णय में डोरंडा कोषागार से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के षडयंत्र में डा० कमल किशोर शरण, तदेन अनुमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, सदर राँची, सहायक निदेशक सामान्य, राँची की सहभागिता प्रमाणित पायी गयी, जिसके लिए माननीय सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा डा० शरण को 04 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 1,00,000/- (एक लाख) रुपये का अर्थदण्ड की सजा दी गयी।

2. उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक-109 नि०गो० दिनांक 04.05.2016 के द्वारा डा० शरण से कारण पृच्छा की गयी कि माननीय सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा सरकारी खजाने से रुपये गबन करने के आरोप को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप सजा दिये जाने के कारण क्यों नहीं आपके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

3. डा० शरण के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा दिनांक 17.05.2016 में मूल रूप से निम्न बातों का उल्लेख किया गया है कि प्रासंगिक मामला वर्ष 1990-91 से 1994-95 का होने तथा वर्ष 2000 में उनकी सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के तहत कार्रवाई नहीं जा सकती है क्योंकि घटना चार वर्ष से काफी पूर्व की है साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति लिये बिना अवर सचिव के हस्ताक्षर से पूछा गया कारण पृच्छा सही नहीं है एवं अपराधिक कांड संख्या- आर०सी० 31 (A)/96 में माननीय सी०बी०आई० न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड के विरुद्ध उनके द्वारा माननीय झारखण्ड न्यायालय में अपील लंबित है। डा० शरण द्वारा उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा एक मामले में दिये गये न्याय निर्णय के आधार पर अपील लंबित रहने की स्थिति में उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार कार्रवाई न्याय संगत नहीं होगा का उल्लेख किया गया है।

4. डा० शरण द्वारा समर्पित कारण पृच्छा जबाब का अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि डा० शरण के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली नियम 43 (ए) के तहत कार्रवाई हो रही है। विदित हो कि वर्ष 1990-91 से 1994-95 के बीच क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, राँची एवं अधीनस्थ कार्यालय के द्वारा जालसाजी कर डोरंडा कोषागार से 65,53,76,509.10/- (पैंसठ करोड़ तिरपन लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ नौ रुपये दस पैसे) रुपये की अवैध निकासी किया गया था, जिसके लिए डा० शरण के विरुद्ध डोरंडा थाना में थाना कांड संख्या-65/96 दिनांक 22.02.1996 दर्ज किया गया था। जो बाद में अपराधिक कांड संख्या-आर०सी०31(ए)/96 में तबदील हो गया। स्पष्ट है कि डा० शरण के विरुद्ध नियमानुकूल वर्ष, 1996 से ही न्यायिक कार्रवाई शुरू हो गयी थी और उक्त न्यायिक कार्यवाही में डा० शरण को 04 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की अर्थ दण्ड की सजा दी गयी है। उक्त सजा के कारण डा० शरण का भविष्य सदाचार स्पष्ट रूप से खंडित होता है, जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (A) में निहित प्रावधान के प्रतिकूल है। अतः नियम 43 (A) के तहत डा० शरण के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई नियमानुकूल है।

- (ii) जहाँ तक डा० शरण के विरुद्ध की गयी कारण पृच्छा पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श / सहमति प्राप्त करने का प्रश्न है के संबंध में समीक्षोपरांत पाया गया कि कांड संख्या-आर०सी० 31 (A)/96 में माननीय सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा दोषी पाये जाने के आलोक में विभाग स्तर से डा० शरण के विरुद्ध दण्ड का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। दण्ड निर्धारण के पश्चात् ही वृहत दण्ड के प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग का परामर्श /सहमति नियमानुकूल अपेक्षित होता है। उसके पूर्व इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः डा० शरण का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-2992/95 (डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन (एडमिनिस्ट्रेशन)) बनाम् नागूर मीरा मामले में न्याय निर्णय पारित किया गया है कि किसी भी अपराधिक कांड में

किसी आरोपित कर्मी को दण्डित किये जाने के आलोक में उसे बर्खास्त /पदावनति/ सेवा से हटाए जाने हेतु कार्रवाई करते समय उसकी ओर से फैसले के विरुद्ध किये गये अपील पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

6. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में डा0 शरण के कारण पृच्छा को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। साथ ही समीक्षोपरांत यह भी पाया गया कि न्यायिक कार्यवाही में डा0 शरण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों (सरकारी खजाने से रूपये गबन) को प्रमाणित पाया गया है एवं उन्हें सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी है। स्पष्ट है कि डा0 शरण के विरुद्ध सरकारी खजाने से राशि गबन करने के आरोप को प्रमाणित होना किसी सरकारी सेवक से अपेक्षित सदाचार/ मर्यादा के वस्तुतः विरुद्ध है।

7. इस प्रकार डा0 शरण का उक्त कृत्य प्रकाश में आने से उनका सदाचार स्पष्ट रूप से खण्डित होता है, जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) में निहित प्रावधान के प्रतिकूल है।

12. अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपराधिक कांड संख्या—आर0सी0 31 (ए)/96 में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा सजा दिये जाने के फलस्वरूप डा0 कमल किशोर शरण, तदेन अनुमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, सदर राँची, सहायक निदेशक सामान्य, राँची सम्प्रति सेवा निवृत्त (सेवा निवृत्ति का तिथि 31.01.2000) के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत उनके पूर्ण पेंशन एवं उपादान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

13. डा0 शरण के विरुद्ध दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

14. अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत डा0 कमल किशोर शरण, तदेन अनुमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, सदर राँची, सहायक निदेशक सामान्य, राँची के पूर्ण पेंशन एवं उपादान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 52—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**